

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 866]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2019 — पौष 4, शक 1941

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 दिसम्बर 2019

आदेश

क्रमांक-एफ-54-24/ तीन (दो)/न. पा./समय कार्यक्रम/2019/3460.— नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 38 के प्रावधान अनुसार नगर पंचायत दोरनापाल जिला-सुकमा के वार्ड क्रमांक 14 में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम निर्देशित अभ्यर्थी की मृत्यु दिनांक 08-12-2019 को हो जाने के कारण पार्षद पद का निर्वाचन रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्यादिष्ट कर दिये जाने से नियम 38 (3) के तहत उक्त पार्षद पद का निर्वाचन संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32 (1) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख एवं समय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	21	30-12-2019 सोमवार पूर्वाह्न 10.30 बजे
	(ii) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना	21	30-12-2019 सोमवार पूर्वाह्न 10.30 बजे से
	(iii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	22-क	30-12-2019 सोमवार प्रातः 10.30 बजे
	(iv) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	30-12-2019 सोमवार प्रातः 10.30 बजे

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	06-01-2020 सोमवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	07-01-2020 मंगलवार पूर्वाह्न 10.00 बजे
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21 (ग)	09-01-2020 गुरुवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	31, 32	09-01-2020 गुरुवार अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	21-01-2020 मंगलवार प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
7.	मतगणना	21 (ङ)	23-01-2020 गुरुवार प्रातः 9.00 बजे से
8.	निर्वाचन परिणामों की घोषणा	74	मतगणना के पश्चात्

हस्ता./-
(जिनेविवा किण्डो)
सचिव.